## जनसत्ता, 29 जून, 2021 11





## जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 28 जून।

चार्टर्ड इंस्टीटयुट आफ इंडिया एकांउटेंट आफ (आइसीएआइ) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीए परीक्षा कराने के लिए यह सबसे अनुकुल समय है क्योंकि कोविड-19 के मामले अब काफी निचले स्तर पर हैं। इंस्टीटयूट ने कहा कि यह चार्टर्ड एकाउंटेंट को अपने पेशेवर करिअर को आगे बढाने के लिए एक उपयुक्त समय प्रदान करता है। आइसीएआइ द्वारा मई में आयोजित की जाने वाली सीए की परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थीं और अब पांच से 20 जुलाई तक परीक्षा आयोजित होने वाली हैं।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के पीठ ने कहा कि चुंकि उसे आइसीएआइ का नोट नहीं मिला है, इसलिए वह मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगा। पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें परीक्षा स्थगित करने और इस साल केंद्रों की संख्या में वृद्धि सहित विभिन्न राहत दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

आइसीएआइ ने पीठ को बताया कि आज की तारीख में कोविड-19 मामलों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है और इस प्रकार यह अभ्यर्थियों के सर्वोत्तम हित में होगा, यदि परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाती हैं और रद्द या स्थगित नहीं की जाती हैं। शुरुआत में आइसीएआइ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रामजी श्रीनिवासन ने कहा कि उन्होंने एक नोट वितरित किया है, जिसे ध्यान में रखते हुए याचिकाओं में उठाए गए

कुछ मुद्दों से निपटा जा सकता है। यांचिकांकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोडा ने कहा कि वे परीक्षा स्थगित करने की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिक केंद्र चाहते हैं।

पीठ ने कहा कि वह मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगा। पीठ ने श्रीनिवासन को अरोड़ा द्वारा उठाए गए तर्क पर निर्देश लेने को कहा। आइसीएआइ ने कहा है-चार्टर्ड एकाउंटेंट परीक्षाएं पेशेवर परीक्षाएं हैं और इसे सीबीएसई या अन्य राज्य बोर्ड परीक्षाओं के साथ कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा के समान नहीं देखा जाना चाहिए। यह अभ्यर्थियों के हित में है कि वे पेशेवर जीवन शुरू करें और आजीविका अर्जित करें।

# राज्य की सूची से स्वास्थ्य को हटाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार

होने का जिक्र किया।

JOHN OAKEY AND MOHAN LIMITED

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 28 जून।

स्वास्थ्य को राज्य की सूची से निकालकर केंद्र की सूची में शामिल करने के निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत

ने खुद दायर की थी।

गुप्ता के एक पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे सरकार से संपर्क करें। याचिका दिल्ली की पूर्व प्रमुख सेशन जज सुजाता कोहली

नागरिकों के स्वास्थ्य को उच्च वरीयता देकर रक्षा जैसे विषय की तरह महत्ता देने का समय नहीं है। सुजाता कोहली का कहना था कि अमरेंद्र मेहता ने अपनी क्या स्वास्थ्य को केंद्रीय सूची में

CIN :L15549DL1962PLC003726 Regd. Office: Office No. 4, FF, CSC Pocket E Market Mayur Vihar, Phase-2, Delhi - 110091 E -Mail : oakeymohan@gmail.com. | Website: www.oakeymohan.in Tel.: 0120-2657298 EXTRACT OF THE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021 Quarter Quarter SI. ended ended **Particulars** No. 31.03.2021 31.12.2020 Audited Unaudited 614.96 643.08 Total Income from Operations (Net) 2 Net Profit / (Loss) for the period(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 59.80 3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 59.80 4 Net Profit/(Loss) for the period after tax

(after exceptional and/or Extraordinary items) 44.39 5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)] 56.61 6 Equity Share Capital 48.38 7 Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year 8 Earnings Per Share (EPS) (for continuing and

discontinued operations)\_

याचिका में सारे देश के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग बनाने की मांग की है। इसमें स्वास्थ्य को राज्य की सूची से हटाकर केंद्र की सूची में शामिल करने की फरियाद की गई है और ज्यादा राष्ट्रीय प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है। लेकिन अपनी याचिका में सुजाता ने आम जनता से सरोकार सकती है। रखने वाले कुछ मुद्दों के शामिल

याचिका में पूछा गया था कि केंद्र के लिए क्या यह देश के करने की सलाह देते हुए याचिका खारिज कर दी।

Quarter

ended

31.03.2020

Audited

40.96

40.96

31.20

44.40

48.38

384.79

14.73

14.73

9.98

12.15

48.38

year

ended

31.03.2021

Audited

1,973.96

107.67

107.67

80.72

116.04

48.38

1,704.17

नहीं लाना चाहिए। याचिका में कोविड काल की भयानक समस्या और राज्यों की तरफ से इससे निपटने में की गई लापरवाही का भी आरोप लगाया गया है। लेकिन पीठ ने उनसे कहा-क्या यह अदालत किसी विषय को राज्य की सूची से हटाने का आदेश दे

सुजाता कोहली ने कहा कि निर्देश नहीं दे सकती पर अदालत को अगर याचिका में दम लगे तो सरकार के पास अपनी संस्तृति तो भेज सकती है। लेकिन पौठ ने याचिकाकर्ता को सरकार से संपर्क

ks. in Lacs

Year

Ended

31.03.2020

Audited

1,988.91

72.47

72.47

45.76

42.72

48.38

1,588.13

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 28 जून। शवों के अंतिम संस्कार के संबंध में मतकों के

अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बनाने की बाबत निर्देश दिए जाने की फरियाद वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपर्क की सलाह दी। याचिकाकर्ता का कहना

था कि कोविड से मरने वालों के शवों के अंतिम संस्कार के वक्त बेजा वसूली और एंबुलेंस वालों की लूट पर नियंत्रण के लिए नौति होनी चाहिए।

याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के पीठ के समक्ष हुई। पीठ ने कहा–आपने मानवाधिकार आयोग की तरफ से की गई कछ सिफारिशों का जिक्र किया है। आप कितने फोरम पर जाओगे।

अरावली सिक्योरिटीज एण्ड	फाडने	ंस लि	मेटेड		
सीआईएन : L67120HR198					
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 136, चौथा तल, राइडर			<b>मि</b> -122003.	हरियाणा	
ई-मेल : info@aravalisecurities.com, वेबसा		-			
31 मार्च, 2021 को समाप्त तिग		_	_	-	
अनंकेक्षित वित्तीय			10009/11/1		
ાંગગણાં ગયાવ	41\91111	नग ।जजरण			(रु. लाख में
क्र. विवरण	-	समाप्त तिमार्ह	t I	समाप	त वर्ष
सं.	31/03/2021	31/12/2020			
	( अंकेक्षित )	( अनंकेक्षित )	( अंकेक्षित )	( अंकेक्षित )	( अंकेक्षित )
1. कुल आय	17.18	14.98	24.34	144.57	597.92
2. कर पूर्व अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(17.84)	(9.09)	(9.95)	7.58	435.71
3. कर पूर्व अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(17.84)	(9.09)	(9.95)	7.58	0.00
<ol> <li>कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)</li> </ol>	(19.26)	(9.09)	(13.26)	7.57	430.53
<ol> <li>अवधि हेतु कुल व्यापाक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) तथा व्यापक आय (कर पश्चात) से मिलकर लाभ/(हानि)]</li> </ol>	(0.61)	0.05	(0.37)	(0.44)	(0.37)
<ol> <li>इक्विटी शेयर पूँजी</li> </ol>	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38
7. आरक्षितियाँ (गत वर्ष के तुलन पत्र में पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	<del>.</del>		-	(1662.78)	(1669.91)
8. आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के)	-			<u></u>	-
बेसिक :	(रु. 0.13)			रु. 0.05	रु. 2.84
डाइल्यूटेड :	(रु. 0.13)	रु. (0.06)	(रु. 0.08)	रु. 0.05	<b></b> . 2.84
<b>1ोट</b> ं : ।. उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम विस्तृत प्रारूप का सार है। अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बीएसई लिमिटे सूचीबद्ध हैं तथा कम्पनी की वेबसाइट www.aravalisecurities.com पर उपल 2. उपर्युक्त वित्तीय परिणाम इण्डएएस 34 (अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग) में प्रावधानित मान्य	ड की वेबसाइ ब्ध है।	ट (www.bs	eindia.com	) जहाँ कम्पनी	i की प्रतिभूति
लेखांकन प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') वे (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम					न'') तथा से
. 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु कम्पनी के उपर्युक्त अंकेक्षित परिण आयोजित निदेशक मण्डल की बैठक में अनुमोदित की गयी।		•			जून, 2021 र
. 31 मार्च, 2021 को समाप्त कम्पनी के तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों की ले उपर्युक्त लेखापरीक्षित परिणामों पर असंशोधित विचार प्रकट किए हैं।	खापरीक्षा कम्	पनी के विधिक	लेखापरीक्षकों	ं द्वारा की गयी	है और उन्हें
. वर्तमान में कम्पनी के प्रचालन केवल एक ही खण्ड अर्थात वित्तीय एवं अन्य परामर्श खण्ड के अनुसार कोई अलग से रिपोर्ट करने योग्य प्रचालन खण्ड नहीं है।	सेवाओं के प्राव	त्रधान तक सीमि	ात हैं और तदनु	नुसार इण्ड एएर	त 108-प्रचाल
. 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के आँकड़े 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के			ासंगिक वित्त व	ार्ष के 31 दिस	म्बर, 2020 र
समाप्त तीसरी तिमाही तक वर्ष तक प्रकाशित आंकड़ों के मध्य अन्तर होने के कारण 7 यत विमाही/वर्ष के शॉकटों को तलनीय बनाने के लिए जहाँ शावण्यक समझा गया	9	•	· <del> *</del>		

अंतिम संस्कार की नीति संबंधी याचिकाकर्ता को

मानवाधिकार आयोग जाने की सलाह

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में ईको टूरिज़्म रिसोर्ट की स्थापना	a Basic b Diluted	9.18 9.18	6.45 6.45		16.68 16.68		7. ग	ात तिमाही/वर्ष के आँकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए जहाँ आवश्यक समझा गया वहाँ पुनर्समू		5	बोर्ड के आदेशानुसा ण्ड फाइनेंस लिमिटेः
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (अनिडको) द्वारा लॉंग आइलैण्ड, स्मीथ आइलैण्ड, एवेस आइलैण्ड तथा शहीद द्वीप में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के आधार पर ईको टूरिज़्म रिसोर्ट की स्थापना हेतु योग्यता के लिए अनुरोध (आर.एफ.क्यू) आंमत्रित किए जाते है।	<ol> <li>The above is an extract of the detailed format of Quarterly And year SEBI(Listing and other Disclosures Requirements) Regulations, <i>available on the website of the Stock Exchange at www.msei.in</i></li> <li>The above results have been reviewed by the Audit Committee a June, 2021</li> </ol>	2015. The ful and on Com	ull format of the npany's websi	e Quarterly an	id year Finar keymohan.in	icial Results are		iक : 28 जून, 2021 न : गुरुग्राम		·	ह.∕- रंजन कुमार पोद्दा वं प्रबन्धक निदेशव
योग्यता के लिए अनुरोध (आर.एफ.क्यू) से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट http://aniidco.and.nic.in ("Announcements" के अधीन) अथवा www.andaman.gov.in (What's new" के अधीन) से डाऊनलोड कर सकते है। पूर्व आवेदन बैठक विडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से दिनांक 14.07.2021 को दोपहर 3.00 बजे आयोजित किया जाएगा । आर.एफ.क्यू आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25.08.2021 निर्धारित की गई है ।	Place: New Delhi Date : 28th June, 2021		Fo		EY AND MC Man	If of the board HAN LIMITED Sanjeev Bawa aging Director DIN: 03633427		PUSHPSONS INDUSTRI CIN: L74899DL1994PLC059 Registered Office: B-40, Okhla Industrial Area, I Email: info@pushpsons.com Phone: 011-4161	950 Phase-I, Nev 0121 Fax: (	w Delhi-110( 011-4105846	020
अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें : महाप्रबंधक (परियोजना) अनिडको लिमिटेड, विकास भवन, पोर्टब्लेयर, अंडमान तथा निकोबार	SEASONS SEASONS TEX			.IMI'	<b>'ED</b>			Extract of the Standalone Audi for the Quarter and Year ended M		021	
द्वीपसमूह, भारत, पिन– 744101 ई–मेलः aniidco@gmail.com शाहदरा शारवा	Registered Office: 26, Feroze Gandhi Road, Lov Email : cs.stl@seasonsworld.c Phone No. 0120-46	wer Ground com, Webs 690000 FAX	id Floor, Lajj site : www.se X : 0120-435	easonsworl 51485	d.com	hi – 110024	SI. No	l. Particulars	3 Months ended 31.03.2021 (Audited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)	(Rs. In Lakhs) 3 Months ended 31.03.2020 (Audited)
बेक और इतिए BOI 🗙 जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली–110032	EXTRACTS OF AUDITED STAND FOR THE YEAR ENDE				JLIS		1	Total income from operations	79.52	246.69	6.56
<b>कब्जा सूचना</b> अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रतिभूतिहित (प्रयर्तन) नियम, 2002		0.5 -0.001 - 80-00	Quarter ende	8451.985 		Rs.in Lakhs) ended	2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	12.89	22.14	-18.44
के नियम 8 के साथ पठित जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित	PARTICULARS 1 Total income from operations (Net)	31.03.2021 452.55	472.55	31.03.2020 1031.39	31.03.2021 1716.52	31.03.2020 3363.90	3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	12.89	22.14	-18.44
प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का नं. 3) बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(26.10)	(26.15)	(80.92)	(106.82)	(49.22)	4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	12.89	22.14	-18.44
शक्तियों के अंतर्गत कर्जवार <b>सुश्री प्रेम लता, श्री श्याम सुन्दर और श्री अंकित पंचाल</b> को मांग सूचना दिनांकित 01.04.2021 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि <b>रू.</b> <b>26,43,237.30 (रुपये छब्बीस लाख तैतालीस हजार दो सौ सैतीस और पैसे तीस मात्र) दिनांक 31.</b>	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and after exceptional items)     Net Profit/ (Loss) for the period	(26.10)	(26.15)	(80.92)	(106.82)	(49.22) (20.58)	5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	11.66	21.44	-20.40
03.2021 तक भविष्य का ब्याज, आकस्मिक एवं अन्य प्रभार इत्यादि उक्त सूचना की प्राप्ति की	(after tax and after exceptional items)	7200522.021			100000000000000000000000000000000000000		6	Equity Share Capital	527.05	527.05	527.05
तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था। कर्जदार / गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार	5 Total comprehensive Income for the period after comprising Profit/ (Loss) for the period (After tax) and other comprehensive Income (after Tax)	(23.92)	(13.32)	(49.58)	(79.17)	(11.83)	7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	-128.03	-128.03	-149.47
तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 24.06.2021 को लिया है।	6 Equity Share Capital     7 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the     Balance Sheet of previous year)	749.03	749.03	749.03	749.03 1505.70	749.03 1585.18	8	Earning Per Share (of' Rs. 10/- each )(for continuing and discontinued operations) - Basic:	0.25	0.46	-0.44
विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन—देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया,	8 Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic:	(0.32)	(0.18)	(0.77)	(1.06)	(0.27)		Diluted:	0.25	0.46	-0.44
शाहदरा शाखा, दिल्ली के प्रमार वारते रु. 26,43,237.30 (रुपये छब्बीस लाख तैतालीस हजार दो सौ सैतीस और पैसे तीस मात्र) दिनांक 31.03.2021 तक भविष्य का ब्याज, आकस्मिक एवं अन्य प्रमार इत्यादि सहित के अधीन होगा। अचल संपत्ति का विवरण	Diluted: Note : 1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and the Quarterly/Annual standalone Financial Results for the Quarter an	(0.32) al Financial Re d other disclos	(0.18) Results for the C osure requirement	(0.77) Quarter and yea nents) Regulation	(1.06) ar ended on 3 ons, 2015. Th	(0.27) 1.03.2021 filed e full format of	a)	The above is an extract of the detailed format of Statement of Standalon Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclos format of the quarterly / year ended Financial Results are available on the	ure Requiremen	nts) Regulations	s, 2015. The full
साम्यिक बंधक सम्पत्ति नं. 1/3377–ए, गली नं. 3, खसरा नं. 572, छत के अधिकार सहित, द्वितीय और तृतीय तल, राम नगर, शाहदरा, दिल्ली–110032 में स्थित, यह सम्पत्ति सुश्री प्रेम	exchange (www.bseindia.com) and the company's website www.sease 2 The above results have been prepared in accordance with Indian Acco	onsworld.com ounting Stand	m,			10% 11% - APASSAS	b)	and on the Company's website (www.pushpsons.com). Previous period figures have been regrouped/rearranged wherever nece	100740370 (CLAR PACE)		
लता के नाम पर है। दिनांक : 24-06-2021, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया	<ul> <li>applicable guildlines issued by Securities and Exchange Board of India</li> <li>The above results have been reviewed by Audit Committee and app meeting held on 28.06.2021.</li> </ul>			rectors of the C For and on beh	10 100	rd of Directors			for Pu	shpsons Indu	istries Limited Sd/- Pankaj Jain
्रिक्ट कर्नाटका बैंक लिमिटेड संपूर्ण भारत में आपका पारिवारिक बैंक प्रधान कार्यालय : मंगलुरू-575 002 CIN : L85110KA1924PLC001128 सम्पत्ति की	Place : Noida Date : 28.06.2021			Ch		Sd/- ingh Wadhwa) aging Director	10225	ace: New Delhi Ited: 28.06.2021			(Director) DIN: 00001923
आस्ति वसूली प्रबन्धन शाखा 8-बी, प्रथम तल, राजेन्द्रा पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060, ई-मेल : delhiarm@ktkbank.com प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी ने 30.08.2019 को भौतिक कब्जा कर लिया है, प्रतिभूत लेनदार कर्नाटक बैंक लिमिटेड, दिल्ली-जी.टी. करनाल रोड शाखा, नं. 6 (जैन कॉलोनी) वीर नगर, जी.टी.		एनबीसीस	सी प्लाजा,	टावर II,	4था तल	<b>U</b>	सेक्टर-	तिमिटेड -5, नई दिल्ली-110017 )pncinfratech.com, वेबसाईट: www.pncinfratech	.com		
करनाल रोड, दिल्ली-110007 के (1) मैसर्स श्री बालाजी रोडवेज इसके प्रोपराइटर श्री अशोक			0								

कुमार गुप्ता द्वारा प्रतिनिधानित, कार्यालय सं. 14, प्रथम तल, प्लॉट नं. 5, जगदेव सिंह कॉम्पलेक्स, शिव मार्केट, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 ( 2 ) श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री राजकुमार गुप्ता, (3) श्रीमती पुष्पा देवी उर्फ पुष्पा गुप्ता पत्नी श्री अशोक कुमार गुप्ता, सं. 2-3 का पता : म.नं. 183, पॉकेट बी-9, सेक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली-110085, कर्जदारों/जमानतियों/सहदायित्वधारियों से कल राशि रु. 98,78,124.50 (रुपये अटठानबे लाख अठहत्तर हजार एक सौ चौबीस एवं पचास पैसे मात्र) (क) 01.09.2020 से भावी ब्याज के साथ पीएसओडी खाता सं. 5537000600012301 के तहत रु. 52,38,360.50 (ख) प्रोटेस्टेड बिल खाता सं. 5537003900001801 में डेबिट इन्वोक्ड बैंक गारंटी के तहत रु. 38,66,434.00 (ग) खाता (ख) एवं (ग) में 01.06.2021 से भावी ब्याज एवं लागत सहित प्रोटेस्टेड बिल खाता सं. 5537003900001901 में डेबिट इन्वोक्ड बैंक गारंटी के तहत रु. 7,73,330.00 की वसूली हेतु उसकी बिक्री 30.07.2021 को ''जहाँ है जैसे है'', ''जो भी है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण 1) आवासीय सम्पत्ति सं. 183, माप 25.90 वर्ग मीटर, ब्लॉक-बी, पॉकेट-9, आवासीय स्कीम,

सेक्टर-5, रोहिणी, दिल्ली-110085 का सम्पूर्ण भाग, श्री अशोक कुमार गुप्ता से सम्बन्धित सीमाएं : पूर्व : प्लॉट सं. 184 पश्चिम : प्लॉट सं. 182 उत्तर : प्लॉट सं. 185 दक्षिण : खुले स्थान से सम्पत्ति में प्रवेश आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति नहीं बेची जायेगी : रु. 50,78,000.00 (रुपये पचास लाख अठहत्तर हजार मात्र) जमा/निविदा की जाने वाली धरोहर राशि : रु. 5,07,800.00 (रुपये पाँच लाख सात हजार आठ सौ मात्र) (प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सम्बन्ध में कर्जदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है। (यह सुचना कर्जदाताओं/जमानतियों के लिए प्रतिभुत हित प्रवर्तन नियम-2002 के नियम (9) के उपनियम (1) के तहत सूचना भी होगी।) विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया कर्नाटका बैंक लिमिटेड की वेबसाइट www.karnatakabank.com में "mortgaged assets for sale" शीर्षक के तहत लिंक देखें। ई-नीलामी 05 मिनट के असीमित विस्तार सहित 30.07.2021 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. तक पोर्टल https://bankauctions.in/ के माध्यम से संचालित की जायेगी। इच्छुक संविदाकार को https://bankauctions.in/ पर अपना नाम पंजीकृत करना तथा निःशुल्क युजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना अपेक्षित है तथा मैसर्स 4क्लोजर, फ्लैट नं. 102, प्लॉट नं. 20, अमृता अपार्टमेंट्स, मोतीनगर, हैदराबाद-500018, सम्पर्क : श्री मनोज, मोबाइल : 8142000066, दुरभाष नं. 040-23836405, ई-मेल : info@bankauctions.in से ई-नीलामी के विषय में ऑनलाइन प्रशिक्षण (29.07.2021 से सम्भावित) प्राप्त कर सकते हैं।

तिथि : 28.06.2021	कृते कर्नाटका बैंक लिमिटेड
स्थान : दिल्ली	मुख्य प्रबन्धक एवं अधिकृत प्राधिकारी

<u>जल का लिलाल सारणांगा का सार</u>
ાવા
חואו וגוחופו
जग लनाज
, 2021
्रा माज,

(ईपीएस को छोड़कर रु. लाखों में

क्रम सं.			स्टैण्डा	<b>एलॉ</b> न			समेरि	केत	
सं.		समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
	विवरण	(31.3.2021)	(31.3.2020)	(31.3.2021)	(31.3.2020)	(31.3.2021)	(31.3.2020)	(31.3.2021)	(31.3.2020)
		अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय	166134.58	117389.17	500066.35	496641.43	188782.60	137681.91	589889.29	577820.28
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	20466.69	10825.96	55850.44	61202.29	25310.75	13126.75	73987.89	71278.05
	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	20466.69	10825.96	55850.44	61202.29	25310.75	13126.75	73987.89	71278.05
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	12938.53	7607.57	36194.62	46030.16	15035.64	9038.80	49690.25	54988.48
5.	अवधि के लिये कुल व्यापक आय (अवधि के लिये लाभ/(हानि) (कर से बाद) तथा अन्य व्यापक आय (कर से बाद) से शामिल	12779.46	7881.14	36187.42	46232.65	14818.94	9367.96	49667.20	55246.23
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अनंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर )	_	00	285716.26	249528.84	_	-	300185.23	250295.20
8.	आय प्रति शेयर (रु. 2/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) 1. मूल	B							
	2. तरल	5.04	2.97	14.11	17.94	5.86	3.52	19.37	21.43

1) उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल की गई तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com, www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.pncinfratech.com) पर उपलब्ध है।

2) उपरोक्त स्टैण्डएलॉन/समेकित परिणामों जिसकी ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 25 जून, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलॉन एवं समेकित) पर सांविधिक लेखा परीक्षकों ने गैर-संशोधित अभिमत के साथ ऑडिट रिपोर्ट जारी किये हैं।

	पीएनसी इन्फ्राटेक लि. के लिए
	हस्ता.
	चक्रेश कुमार जैन
स्थानः आगरा	प्रबंध निदेशक
स्थानः आगरा तिथिः 25 जून, 2021	(DIN: 00086768)

19

## **FINANCIAL EXPRESS**

### BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR NORTHERN REGION

In the matter of sub-section (4) of section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

#### AND In the matter of HN PROPERTIES PRIVATE LIMITED

having its Registered Office at Neel House, Lado Sarai Khasra No. 172, Opp. Qutub Minar New Delhi-110030 .....Petitioner

## NOTICE

Notice is hereby given to General Public that the Company proposes to make the application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of Memorandum of Association of the Company in terms of Special Resolution passed at Extra Ordinary General Meeting held on Saturday, 26th June of 2021 to enable the Company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on MCA portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be deliver or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director at the Address B-2 Wing, 2nd, Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi -110003, within 14 Days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Address of Registered Office: Neel House, Lado Sarai Khasra No. 172, Opp. Qutub Minar New Delhi-110030.

Shotist General St. St.	For and on behalf of
	HN Properties Private Limited
	Sd/-
	Anand Swaroop
Place: Delhi	(Director)
Date: 26.06.2021	DIN: 00004816

📩 The Karnataka Bank Ltd. SALE Your Family Bank . Across India. NOTICE Head Office, Mangaluru - 575 002 | CIN : L85110KA1924PLC001128 OF Asset Recovery Management Branch 8-B, First Floor, Rajendra, Park Pusa IMMOVABLE Road, New Delhi-110060. Mobile : 9319891680 PROPERTY Website : www.karnatakabank.com E-Mail : delhiarm@ktkbank.com E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to public in general and in particular to Borrower (s) and Guaranton (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured Creditors, the Physical Possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Secured Creditors on 30.08.2019, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" basis on 30.07.2021, for recovery of aggregate amount of being Rs.98,78,124.50 (Rupees Ninety Eight Lakhs Seventy Eight Thousand One Hundred Twenty Four and Fifty Paisa Only) (a) Rs.52,38,360.50 under PSOD A/C No. 5537000600012301 along with future interest from 01.06.2019 (b) Rs.38,66,434.00 under Invoked Bank Guarantees debited to Protested Bills A/c No.5537003900001801 (c) Rs.7,73,330.00 under Invoked Bank Guarantees debited to Protested Bills A/c No. 5537003900001901 along with future interest from 01.06.2021 in account (b) and (c) plus cost, due to the Karnataka Bank Ltd. Delhi-G.T. Karnal Road Branch, No.6, (Jain Colony) Veer Nagar, GT Karnal Road, Delhi-110007, the Secured creditors from (1) M/s Shree Balaji Roadways Represented by its proprietor Mr. Ashok Kumar Gupta, Office No.14, 1st Floor, Plot No.5, Jagdev Singh Complex, Shiv Market, Pitam Pura, New Delhi 110034 (2) Mr. Ashok Kumar Gupta S/o. Mr. Raj Kumar Gupta (3) Mrs. Pushpa Devi @

Pushpa Gupta W/o Mr Ashok Kumar Gupta No.2-3 are addressed at: H No 183

Notice for Auction of Assets NEWGEN SPECIALTY PLASTICS LTD. (in Liquidation)

Reg. Off. Of the Company: A-47 Aruna Park Shakarpur, Near Sanjay Park, East Delhi -110092 Liquidator's Address: 83-B, Pocket-IV, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110091 Email: skbmica@gmail.com | Contact No.-011-43011782

E-Auction - Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of Auction: 07th July, 2021 from 03.00 PM to 5.00 PM Last Date for submission of Bid: 06th July, 2021 (With unlimited extension of 5 minutes each)

Sale of Assets and Properties owned by NEWGEN SPECIALTY PLASTICS LTD (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate in possession of the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Delhi vide order dated January 07, 2021. The sale of properties will be conducted by the undersigned through the e-auction platform. 

by the undersigned through the e-adotion platform.		1	Amount in Rs.
Description of Assets	Reserve Price	EMD	Bid Incremental Value
Plant & Machinery, Furniture & Fixtures and Office Equipments situated at	1,68,00,000.00	16,80,000.00	1,20,000.00
E-24 & 25, Site-C, Surajpur Industrial Area, Greater Noida		62	2
F-46, Site-C, Surajpur Industrial Area, Greater Noida		8	
G-24, Site-IV, UPSIDC Kasna, Greater Noida		0	1
Plot 42 & 43, Ecotech Ext-I Greater Noida			
	5 C		

## Terms and Conditions of the E-auction are as under

Date: 29/06/2021

Place: Delhi

 E-auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", and "WHATEVER THERE IS" BASIS. 2. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e- auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website https://eauctions.org/, Contact: Mr. Ankit (M-9873694065) on Ankit@claim-bridge.com or Liquidator's office. 3. The tentative list of assets is given in the Bid documents. Please download Bid documents for full details from website eauctions.org

For Visits to factory and other assets, write mail to liquidator office at skbmica@gmail.com enclosing Photo Id.

#### Sd/-Sandeep Kumar Bhatt

Liquidator Regn.No.: IBBI/IPA-002/IP-N01064-C01/2017-18/10298

## SEASONS TEXTILES LIMITED SEASONS

CIN - L18101DL1986PLC024058

Registered Office: 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi - 110024 Email : cs.stl@seasonsworld.com, Website : www.seasonsworld.com Phone No. 0120-4690000 FAX : 0120-4351485

## EXTRACTS OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH, 2021

		C	Quarter ende	d	Year	ended
	PARTICULARS	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	Total income from operations (Net)	452.55	472.55	1031.39	1716.52	3363.90
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(26.10)	(26.15)	(80.92)	(106.82)	(49.22)
3	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and after exceptional items)	(26.10)	(26.15)	(80.92)	(106.82)	(49.22)
4	Net Profit/ (Loss) for the period (after tax and after exceptional items)	(24.50)	(13.32)	(58.33)	(79.75)	(20.58)
5	Total comprehensive Income for the period after comprising Profit/ (Loss) for the period (After tax) and other comprehensive Income (after Tax)	(23.92)	(13.32)	(49.58)	(79.17)	(11.83)
6	Equity Share Capital	749.03	749.03	749.03	749.03	749.03
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)				1505.70	1585.18
8	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic: Diluted:	(0.32)	(0.18) (0.18)	(0.77) (0.77)	(1.06) (1.06)	(0.27) (0.27)

#### JOHAL INVESTMENTS LTD. RZF1, SHOP NO.5, VIJAY ENCLAVE, SHIV MAIN MARKET, New Delhi-110045 CIN: U67120DL1990PLC209682 | RBI REGISTRATION NO.: B-14.03253 | WEBSITE: jilfinance.com UNDELIVERED DEMAND NOTICE

We have already issued detailed demand notices U/s 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 by Speed post/ Regd, post to the Borrower and the Co- borrower which have been returned undelivered marked as refused. You the borrower/ Co-borrower can collect the original notice/ cover addressed to you, the borrower/ co-borrower, returned by speed post/ regd. posta authorities from the undersigned and to pay the balance outstanding amount with interests and costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid future action under SARFAESI Act 2002.

We have indicated our intention for further action under SARFAESI Act 2002 as per Section 13 (4) of the Act, in case you, the borrower and coborrower failure to pay the amount mentioned above within 60 days.

You are also put on notice that in terms of Sub Section 13 of Section 13, you shall not transfer by sale / lease/ otherwise the said secured assets etailed below of this notice without obtaining within consent of bank/ F.I.

## The details of the account and secured assets along with amount outstanding is given below-

S.No.	Loan account no	Name of Borrower(s)/ Applicant (s)& Co-borrower(s)/ Co- applicant(s) & Guarantor(s)	Description of the property mortgaged/ charged	Amount outstanding (as per notice U/s-13(2), SARFAESI
t.	JIL/SEPT 08/2017-JIL 088	1.Sh. Yashpal Mehan ( Borrower) 2. Mansi Mehan (Co-borrower)	Khata no. 00138, out of Khasra no. 923, Village Ghori Bachhera, Pargana and Tehsil Dadri, Greater Noida, Uttar Pradesh- 201308	72, 53,500/-(Rs. Seventy Two lac Fifty Three thousand Five hundred only)) as on 16.06.2021 with further interests, expenses and other charges etc.
Place	: New Delhi			Authorised Signatory Johal Investments Ltd.

/ Ex	CIN NO: Regd. Office: 903, Rohit Tel No.: +91-11-23725826/27/28, Website: www.p	L70101DL19 House, 3, Tol bearlapartme	79PLC009901 stoy Marg, N nts.co.in, En	l) Iew Delhi-110 nail Id: pearl.	001 secretarial@pe ar ended Mar	
		For	quarter end	led	1988	ar ended
SI.	Particulars	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
No.		Unaudited	Unaudited	and the second se	Audited	Audited
1	Total income from operations (net)	22,31,466	21,64,037	20,65,129	84,02,907	1,47,34,475
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	2,87,350	4,55,620	70,353	24,91,499	67,80,316
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	2,87,350	4,55,620	70,353	24,91,499	67,80,316
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(5,97,802)	3,37,160	2,88,591	10,33,267	54,76,566
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(5,97,802)	3,37,160	2,88,591	10,33,267	54,76,566
6	Equity Share Capital	50,00,000	50,00,000	50,00,000	50,00,000	50,00,000
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		20		21,38,83,433	21,28,50,166
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic 2. Diluted	(1.20) (1.20)	0.67 0.67	0.58 0.58	2.07	10.95 10.95

Pushpa Gupta W/o. Mr. Ashok Kumar Gupta, No.2-3 are addressed at: H.No.163,	- C	(afte
Pocket B-9, Sector-5, Rohini, Delhi-110085, being borrowers/guarantors/co -	5	Tota
obligants.		Profi
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY:		Inco
1) All that part and parcel of residential property bearing No.183 measuring 25.90 sq.mtrs	6	Equi
situated at Block-B, Pocket-9, Residential Scheme, Sector-5, Rohini, Delhi-110085	7	Rese
belonging to Mr. Ashok Kumar Gupta.		Bala
Boundaries :	8	Earn
East- Plot No.184, West- Plot No: 182		(for a
North- Plot No.185, South- Entry to the property through open space		Basi
<b>Reserve Price/Upset Price below which the property may not be sold:</b> Rs.50,78,000.00		Dilut
(Rupees Fifty Lakhs Seventy Eight Thousand Only)	No	te:1
Earnest money to be deposited/tendered: Rs.5,07,800.00 (Rupees Five Lakhs Seven	323	with th
Thousand Eight Hundred Only)		the Qu
(The borrower's / mortgagor's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of		excha
Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset).	2	The ab
(This Notice shall also serve as Notice under Sub Rule (1) of Rule (9) of Security	1000	applica
Interest Enforcement Rules-2002 to the Borrower/Guarantors)	3	The at
For detailed terms and conditions of sale, please refer to link in Karnataka Bank's		meetir
Website i.e. www.karnatakabank.com under the head "mortgaged assets for sale".	1.28	
The E-auction will be conducted through portal https://bankauctions.in/ on 30.07.2021		ace : N
from <b>11:00</b> Am to <b>12:00</b> pm with unlimited extension of 05 minutes. The intending bidder is	Da	te : 28
required to register their name at https://bankauctions.in/ and get the user Id and	23	
password free of cost and get online training on E-auction (tentatively on 29.07.2021) from		
M/s. 4 closure, Flat No.102, Plot No.20, Amrutha Apartments, Mothi Nagar, Hyderabad-		
500018 contact Mr. Manoj, Mob No.8142000066, Tel No.040-23836405, Email-		
info@bankauctions.in.		

Date: 28.06.2021	For Karnataka Bank Ltd,
Place: Delhi	Chief Manager & Authorised Officer

POSSESSION NOTICE (for immovable property)Rule 8-(1) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known India Infoline Housing Finance Ltd.)(IIHFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrowers /co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowe having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred or him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower In particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property wil be subject to the charge of IIHFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon."The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the "IIHFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIHFL" and no further step shall be taken by "IIHFL" for transfer or sale of the secured assets.

Meerut Branch Mrs. Tripti, Mr.Vipin	Description of Secured Asset (Immovable Property) All that piece and parcel of Unit No G-18, Carpet area 759 sq.feet and Built up area 893 sq.feet, Plot	Outstand and the set	Date of Demand Notice	Date of Possession
Kumar (Prospect No. 899365)	rwali bayiipal Roau, Meerul, Ollar Frauesii.		02-Feb-2021	25-June-2021
	All that piece and parcel of Plot C-1634, admeasuring		00 May 2021	

Mukesh Vastra Bhandar 50.00 sq. mtrs., Pocket C, Sector 4-C, Shatabdi Nagar, Rs.9,13,062/- 02-Mar-2021 25-June-2021 (Prospect No. IL10075399) Meerut, Uttar Pradesh, India, 250002

For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office :- FN-01,1st Floor,Star Plaza,Near Bachcha Park Begum Bridge Road, Meerut - 250001/Or Corporate Office : Plot No.98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana. Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited (IIFL HFL) Place: Meerut Date: 29-06-2021

#### CSL Finance CSL FINANCE LIMITED

## Regd. Office: 410-412,18/12, 4<sup>th</sup> Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 Corp. office: 716-717, 7<sup>th</sup> floor, Tower B, World Trade Tower, Noida, Sector-16, U.P.-201301 (CIN: L74899DL1992PLC051462; Tel: 0120-4290654; Email: info@csifinance.in; Web: www.csifinance.in

#### POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 108, 110 of the Companies Act, 2013 ('the Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 ("the Rules"), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the relaxations and clarifications issued by Ministry of Corporate Affairs vide Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28 2020, 39/2020 dated December 31, 2020 and General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021(MC/ Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), for seeking approval of the Members of CSL Finance Limited ("the Company") for the following special businesses item through Postal Ballot by remote e-voting process ("Postal Ballot/remote e-voling)

#### Item No.1- Increase in the Authorized Share Capital of the Company and consequential alteration to Clause 5 of the Memorandum of Association of the Company;

Item No.2-Issue of Bonus Shares in the ratio of 2 (two) equity shares for every 1 (one) equity shares held.

Item No.3- Appointment of Ms. Rachita Gupta (DIN 09014942) as a Director and as a Whole-time Director of the Company;

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results for the Quarter and year ended on 31.03.2021 filed the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and other disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of Auarterly/Annual standalone Financial Results for the Quarter and year ended on 31.03.2021 are available on the website of the stock

- ange (www.bseindia.com) and the company's website www.seasonsworld.com.
- above results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS), the provisions of Companies Act, 2013 as cable guildlines issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI)
- above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective ting held on 28.06.2021. For and on behalf of the Board of Directors

Noida 8.06.2021

(Inderjeet Singh Wadhwa) Chairman & Managing Director

## **ISF LIMITED**

**REGD. OFFICE : K- 10 SOM VIHAR R K PURAM NEW DELHI** CIN No : L74899DL1988PLC076648; Email-id: amar@isflimited.com; PH : 011-26109124; Fax : 011-26188970

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH 2021

			(RS. Lakns)
Particulars	Quarter Ended 31-03-2021	Year ended 31-03-2021	Quarter Ended 31-03-2020
Total Income from operations	50.58	246.04	32.89
Net Profit from ordinary activities after Tax	20.02	34.41	22.86
Net Profit for the period after tax (after Extra ordinary itms)	20.02	34.41	22.86
Equity Share Capital (Face value of Re. 1/- each) Reserves Excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of	95000000	95000000	95000000
previous accounting year Earning Per Share (before extraordinary items) of Re. 1/- each		372.55	
(not annualised) Earning Per Share (after extraordinary items) of Re. 1/- each	0.0211	0.0362	0.0241
(not annualised)	0.0211	0.0362	0.0241

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites. www.isflimited.in

1) The financial results of the company have been prepared in accordence with Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

2) The Company has considered the possible effects that may result from the pandemic related to Covid-19 on the carrying amounts of receivables, loans and Advances and other assets on the basis of evaluation at current indicators of future economic condition. The company expects to recover the carrying amount of such asset & does not anticipate any impairment to these financial & non-financial assets

- The above results have been reviewed by the Audit Committee were approved and taken on record by the Board of Directors at 3) its meeting held on June 28,2021
- Segment reporting as defined in IND-AS 108 is not applicable since the entire operations of the company relates to only one 4) seament
- 5) The Annual Financial results include the results for the quarter ended 31 March 2021, being the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and the published unaudited published figures up to the 3rd quater of the current financial year which were subjected to limited review by auditors.
- Figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.
- 7) There are no Other Comprehensive Income for the periods presented above.

## **ARAVALI SECURITIES & FINANCE LIMITED** CIN - L67120HR1980PLC039125

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

REGD OFFICE: PLOT No.136, 4" FLOOR, RIDER HOUSE, SECTOR 44, GURGAON-122003, HARYANA

Email: info@aravalisecurities.com Website: www.aravalisecurities.com

Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Quarterly and audited year ended Financial Results for the Quarter and Year ended as on 31st March 2021 is available on the Stock Exchange website: www.msei.in and on the Company's website: www.pearlapartments.co.in.

For Pearl Apartments Ltd Sd/ (Krishen Kumar Seth) (Chairman & Managing Director)

Place : New Delhi Date : 28th June, 2021

## PAN INDIA CORPORATION LIMITED

(CIN: - L72200DL1984PLC017510)

Regd. Off.- 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Email: srgltd@gmail.com, Website: http://www.panindiacorp.com, Tel. No. 011-43656567

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

(Pursuant to Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2017)

(Amount Rs. In Lacs)

DIN: 00005765

S. No.	Particulars	Year Ended 31st March, 2021 (Audited)	Year Ended 31st March, 2020 (Audited)	Quarter Ended 31st March, 2021 (Audited)	Quarter Ended 31st March, 2020 (Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	(106.08)	2.08	(95.46)	(2.75)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(106.08)	2.08	(95.46)	(2.75)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(106.16)	1.56	(95.54)	(2.16)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(106.16)	1.56	(95.54)	(2.16)
6	Paid - up equity share capital (face value of Rs. 10/- each)	21,425.65	21,425.65	21,425.65	21,425.65
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as show in the Audited balance sheet of the previous year)				
8	Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	a. Basic	(0.0495)	0.0007	(0.0446)	(0.0010)
	b. Diluted	(0.0495)	0.0007	(0.0446)	(0.0010)

The above Audited Standalone Financial Statements/Results for the Quarter and Year Ended as on 31st March. a) 2021, have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their Meetings held on 28th June, 2021

The previous year figures have been regrouped, re-classified and recasted wherever necessary. b)

The Company operates in only one segment. C)

The Figures for the quarter ended 31st March, 2021 and 31st March, 2020 are the balancing figures between d) audited figures in respect of the full financial year and the published figures for the nine months ended 31st Dec 2020 and 31st Dec, 2019 respectively.

By the order of Board of Directors
For PAN INDIA CORPORATION LIMITED
Sd/-
VIJAY PAL SHUKLA
(Managing Director)
DIN: 01379220

Place: New Delhi Date: 28.06.2021

For ISF LIMITED

(Vishal Dang)

Sd/

Director

PAN INDIA CORPORATION LIMITED

(CIN: - L72200DL1984PLC017510) Regd. Off.- 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Email: srgltd@gmail.com, website: http://www.panindiacorp.com, Tel. No. 011-43656567 EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS



Place : New Delhi

Date : 28.06.2021

Item No.4- Appointment of Mr. Ayush Mittal (DIN 07667437) as a Director and as an Independent Director of the Company

In this regard, the Members are hereby further notified that-

In terms of MCA Circulars, the Company has emailed the Postal Ballot Notice alongwith Explanatory Statement on June 28, 2021, to the members of the Company whose name appears in the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from Depositories as at Friday, June 25, 2021 ('Cut off Date'). Voting Rights as shall be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the Company as on Cut off Date. A person who is not the member as on the Cut Off Date to treat this Notice for information purpose only.

In accordance with MCA Circulars, hard copy of Postal Ballot Notice & Postal Ballot Form will not be sent to the Members for the Postal Ballot. The communication of assent or dissent of the Members would take place through the remote e-voting system only.

The Postal Ballot Notice has also been placed on Company's website: www.cslfinance.in and NSDL's evoting website: https://www.evoting.nsdl.com and will also be available on the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com on which shares of the Company are listed.

The Company has engaged the services of NSDL for providing e-voting facility to all its Members. The Process of registration of email address is as under:

#### Process of registration of email address:

- a) If you are holding shares in physical mode: Please send signed request letter with copy of pan, Aadhar and copy of any one share certificate (front & back) at info@masserv.com with subject line "EMAIL ID REGISTRATION OF CSL FINANCE LIMITED OF FOLIO NO .: (mention your folio number)
- b) If you are holding shares in demat mode:- Please update your email id with your demat account and send copy of updated client master to info@masserv.com with subject line "(POSTAL BALLOT NOTICE OF CSL FINANCE LIMITED OF DPID-CLID (mention your DPID-CLID)
- c) In case of any queries, Members may write to info@masserv.com or investors@cslfinance.in.
- d) If any Member who has registered the email address and not received Postal Ballot Notice, user id and password for remote e-voting, such member may write to info@masserv.com or investors@cslfinance.in from their registered email address to receive the same.

### Key details regarding the Postal Ballot /E-Voting:

1.	Scrutinizer Details	Mr. Nitin Panchal, M/s N. Panchal & Associates, Delhi Email: csnitinpanchal@gmail.com
2.	Cut Off Date for eligibility of e-voting	Friday, June 25, 2021
3,	E-Voting Period	Starts on Tuesday, June 29, 2021 at 9.00 a.m. IST Ends on Wednesday, July 28, 2021 at 5.00 p.m. IST
4.	Last date of publishing of results of e-voting	On or before July 30, 2021 by 5.00 p.m. IST Results shall be communicated to BSE Limited where Equity shares of the Company are listed. Results shall also be displayed on Company's Website (www.cstfinance.in) and on website of NSDL (www.evoting.nsdl.com)
5.	Detail of RTA In case of any queries/ grievances/Updation of email id etc	MAS Services Limited T-34 2 <sup>rd</sup> Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020 Email: info@masserv.com Contact No. 011-26387281-83
	e: June 28, 2021 ce: Noida	For CSL Finance Limited Sd/- Rohit Gupta Managing Director (DIN: 00045077)

1		Quarter ended			Year ended	
SI. No.	Particulars	31/03/2021 (Audited)	31/12/2020 (Unaudited)	31/03/2020 (Audited)	31/03/2021 (Audited)	31/03/2020 (Audited)
1	Total income	17.18	14.98	24.34	144,57	597.92
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax, (before Exceptional and/or Extraordinary items)	(17.84)	(9.09)	(9.95)	7.58	435.71
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(17.84)	(9.09)	(9.95)	7.58	0.00
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(19.26)	(9.09)	(13.26)	7.57	430.53
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and the comprehensive Income (after tax)	(0.61)	0.05	(0.37)	(0.44)	(0.37)
6 7	Equity Share Capital	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)				(1662.78)	(1669.91)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic : Diluted:	(Rs 0.13) (Rs 0.13)	Rs (0.06) Rs (0.06)	(Rs 0.08) (Rs 0.08)	Rs 0.05 Rs 0.05	Rs2.84 Rs2.84

## NOTES :

Dated: 28th June 2021

Place : Gurgaon.

The above is the extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with Stock Exchanges under Reguation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results are available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the securities of the Company is listed and on the website of the Company at www.aravalisecurities.com.

The Above financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act"). having regard to the recognition and measurement principles laid down in Ind AS 34 ("Interim Financial Reporting") and other recognized accounting practices generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations").

3 The aforementioned audited results of the company for the guarter and year ended 31st March, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 28th June, 2021.

4 The Statutory Auditors of the Company have carried out audit of the company for the year ended 31st March 2021 and has given unmodified opnion on the above mentioned audited results.

5 The Company's operations at present are confined to only one segment i.e. providing Financial and Other Advisory Services and accordingly there are no separate reportable operating segments as per Ind AS 108 - Opertating Segments.

6 The figures for the quarter ended 31st March 2021 are the balancing figures being difference between the audited figures in respect of year ended 31st March, 2021 and the published year to date figures upto the third quarter ended 31st December, 2020 of the relevant financial year.

7 The Figures of the previous guarter/year have been regrouped/rearranged whenever necessary, in order to make them comparable.

By order of the Board For Aravali Securities & Finance Limited

> Ranjan Kumar Poddar Chairman & Managing Director

#### FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021 (Pursuant to Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2017)

(Amount Rs. In Lacs)

tal Income from Operations (Net) It Profit/Loss for the period (before tax, ceptional and /or Extraordinary Items) It Profit/(Loss) for the period before tax (after ceptional and/or Extraordinary items)	0.00 (106.08)	0.00	0.00	0.00
ceptional and /or Extraordinary Items) t Profit/(Loss) for the period before tax (after	(106.08)	2.00		
	S	2.00	(95.46)	(2.75)
	(106.08)	2.08	(95.46)	(2.75)
t Profit/(Loss) for the period after tax (after ceptional and/or Extraordinary items)	(106.16)	1.56	(95.54)	(2.16)
tal Comprehensive Income for the period omprising Profit/Loss for the period (after tax) d Other Comprehensive Income (after tax)]	(106.06)	8.24	(95.19)	1.18
id - up equity share capital (face value of . 10/- each)	21,425.65	21,425.65	21,425.65	21,425.65
serve (excluding Revaluation Reserve) as show the Audited balance sheet of the previous year)		12	2	
rnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) r continuing and discontinued operations)				
Basic	(0.0495)	0.0038	(0.0444)	(0.0005)
Diluted	(0.0495)	0.0038	(0.0444)	(0.0005)
o d in ist in r	mprising Profit/Loss for the period (after tax) Other Comprehensive Income (after tax)] d - up equity share capital (face value of 10/- each) serve (excluding Revaluation Reserve) as show he Audited balance sheet of the previous year) nings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) continuing and discontinued operations) Basic Diluted	mprising Profit/Loss for the period (after tax) Other Comprehensive Income (after tax)]       (106.06)         d - up equity share capital (face value of 10/- each)       21.425.65         serve (excluding Revaluation Reserve) as show he Audited balance sheet of the previous year)       -         nings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) continuing and discontinued operations)       (0.0495)         Basic       (0.0495)         Diluted       (0.0495)	mprising Profit/Loss for the period (after tax) Other Comprehensive Income (after tax)]       (106.06)       8.24         d - up equity share capital (face value of 10/- each)       21.425.65       21.425.65         serve (excluding Revaluation Reserve) as show he Audited balance sheet of the previous year)       -       -         nings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) continuing and discontinued operations)       (0.0495)       0.0038         Basic       (0.0495)       0.0038         Diluted       (0.0495)       0.0038	mprising Profit/Loss for the period (after tax) Other Comprehensive Income (after tax)](106.06)8.24(95.19)d - up equity share capital (face value of 10/- each)21,425.6521,425.6521,425.6521,425.65serve (excluding Revaluation Reserve) as show he Audited balance sheet of the previous year)nings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) continuing and discontinued operations)(0.0495)0.0038(0.0444)

The previous year figures have been regrouped, re-classified and recasted wherever necessary.

The Company operates in only one segment. C)

d)

Place: New Delhi

Date: 28.06.2021

Sd

The Figures for the quarter ended 31st March, 2021 and 31st March, 2020 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published figures for the nine months ended 31st Dec. 2020 and 31st Dec, 2019 respectively.

By the order of Board of Directors For PAN INDIA CORPORATION LIMITED Sd/-VIJAY PAL SHUKLA

(Managing Director) DIN: 01379220









